



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1941 (श0)

(सं0 पटना 584) पटना, सोमवार, 29 अप्रील 2019

गृह विभाग

प्रपत्र सं0-1

22 अप्रील 2019

(बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 एवं
बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 7 के अधीन)

घोषणा

सं० बी0/आ0अ0ई0-01/2019-4142—चूंकि यह अभिकथित किया गया है कि मो० युनूस, पिता-स्व० सिद्धिक, सा०-चंदनपट्टी, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार, वर्तमान पता- मोहल्ला-हारुण नगर, गली नं०-02, स्टेशन रोड, फुलवारीशरीफ, पटना ने बिहार राज्य में परिवहन विभाग के अन्तर्गत मोहनिया, जिला-कैमूर में प्रवर्तन अवर निरीक्षक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) का पद धारण करते हुए पांच अन्य के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ई) के अधीन अपराध किया और मामले की जांच आर्थिक अपराध थाना कांड सं०-05/2013, दिनांक-19.02.2013 धारा 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में की गई है;

और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि मो० युनूस, पिता-स्व० सिद्धिक, सा०-चंदनपट्टी, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, मोहनिया, जिला-कैमूर, परिवहन विभाग, बिहार सरकार (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर पांच अन्य के साथ अपने आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथम दृष्टया केस बनता है;

और चूंकि सरकार को यह आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त अपराधियों पर विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए;

इसलिए, अब विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

22 अप्रैल 2019

सं० बी०/आ०अ०ई०-०१/२०१९-४१४२ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 22nd April 2019

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act, 2009, and
Rules 7 of Bihar Special Courts Rules, 2010)

DECLARATION

सं० बी०/आ०अ०ई०-०१/२०१९-४१४२—WHEREAS, It was alleged that **Md. YUNUS, S/O- Late Siddique, Vill-Chandanpatti, P.S.-Sakra, Dist-Muzaffarpur, A/P- Mohalla-Haroon Nagar, Gali No. 02, Station Road, Phulwari Sharif, Distt-Patna** while holding the post of the **Enforcement Sub Inspector, Mohania, Distt.-Kaimur, Transport Department, Govt. of Bihar** (since dismissed from service) and serving in different capacities under Government of Bihar committed an offence alongwith five another accused under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Economic Offences P.S. Case No. **05/2013**, dated **19.02.2013**,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of commission of above mentioned offence by the said **Md. YUNUS, S/O- Late Siddique, Vill-Chandanpatti, P.S.-Sakra, Dist-Muzaffarpur, Enforcement Sub Inspector, Mohania, Distt.-Kaimur, Transport Department, Govt. of Bihar** (since dismissed from service) and five another accused who have accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offenders should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 584-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>